

श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन

पुस्तकों का रोमांच सदैव बना रहेगा, इसी सकारात्मक सन्देश के साथ आज श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय द्वारा गुरुग्राम के ट्रांजिट ऑफिस में एक दिवसीय पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उक्त प्रदर्शनी में देश-विदेश के करीब १५ प्रकाशकों एवं विक्रेताओं ने सहभागिता की।

राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर के अग्रणी प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेताओं में मेकम्राहील, वाइली, वीवा बुक्स, पियर्सन एजुकेशन, सेज, इंडिका, इंटरनेशनल बुक्स, वेदी तथा मेट्रो आदि ने पुस्तकें प्रदर्शित की।

विश्वविद्यालय के कुलपति श्री राज नेहरू ने पुस्तक प्रदर्शनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय पुस्तकालय का एक सराहनीय कदम है। इस पुस्तक प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकाशकों द्वारा विभिन्न विषयों पर पुस्तकों का प्रदर्शन किया गया जिसमें पुस्तकें देखने तथा उनके विस्तृत चयन का अवसर एक ही स्थान पर प्राप्त हुआ है।

इस अवसर पर डीन (अकादमिक) प्रोफेसर (डॉ०) आर. एस. राठौर ने बताया कि पुस्तक प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य फैकल्टी, स्टाफ एवं विद्यार्थियों को तकनीकी विषयों की विभिन्न विधियों के आलावा ऐसी पुस्तकों से रूचू कराना है जो कि नए-नए अनुसंधानों, नई तकनीकी परिवर्तनों, कौशल विकास, आद्योगिक क्षेत्रों में आरहे वदलावों आदि से सम्बन्ध रखते हैं।

उप पुस्तकालय अध्यक्ष डॉ० जितेन्द्र कुमार दुबे ने बताया कि प्रदर्शनी में किताबों को देखने के साथ-साथ ही भारी छूट के साथ पुस्तकें खरीदने की व्यवस्था भी की गयी है। प्रदर्शनी में तकनीकी विषयों के अतिरिक्त साहित्यिक, प्रतियोगी परीक्षाओं, रोचक कहानियां, बायोग्राफी, सामान्य ज्ञान आदि का भी संकलन प्रदर्शित किया गया है।